



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 747) पटना, शुक्रवार, 16 सितम्बर 2016

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

23 दिसम्बर 2015

सं0 3096—श्री हनुमान मंदिर, बोरिंग रोड चौराहा, जिला— पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0—3994 है।

इस न्यास की आय के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र पर पर्षद द्वारा न्यास का स्थानीय निरीक्षण कराया गया। जांचकर्ता द्वारा न्यास के कुप्रबंधन तथा आय के दुरुपयोग की पुष्टि की गई। साथ ही श्री नवल किशोर पाण्डेय से प्राप्त आवेदन पत्र पर डॉ0 गौरी शंकर लाल को कारण—पृच्छा को नोटिस दी गई, कि क्यों नहीं इस मंदिर को एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास घोषित किया जाय। इसके विरोध में डॉ0 गौरी शंकर लाल ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी सं0—12070/2009 दाखिल किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14/12/2009 को इसका निष्पादन करते हुए पर्षद को निर्देश दिया गया कि संबंधित पक्षों को नोटिस देकर उन्हें साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया जाय और तत्पश्चात् पर्षद इस पर विधि अनुकूल निर्णय ले।

मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में डॉ0 गौरी शंकर लाल तथा श्री नवल किशोर पाण्डेय को सुनवाई की नोटिस दी गई और पर्षद के खंड पीठ द्वारा विभिन्न तिथियों पर सुनवाई की गई। सुनवाई के पश्चात् इस मामले का निष्पादन करते हुए दिनांक— 15/05/15 के आदेश में कहा गया कि पूर्व से ही यह एक सार्वजनिक न्यास के रूप में विकसित हुआ था और मंदिर निर्माण के बाद भी सार्वजनिक पूजा—पाठ होता रहा एवं चढ़ावा चढ़ता रहा था एवं इसका स्वरूप किसी भी कारण से बाद में बदल जाना संभव नहीं था, अतः यह मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर था और है।

उक्त निर्णय को पर्षद की बैठक दिनांक 30/09/15 में सम्पुष्टि की गयी।

दिनांक 11/07/2015 को स्थानीय जनता द्वारा इस न्यास की व्यवस्था के लिए न्यास समिति के गठन हेतु 9 सदस्यीय न्यास समिति का नाम प्रस्तावित किया गया। पर्षदीय पत्रांक— 1657, 1658, 1659 एवं 1660, दिनांक 25/08/2015 द्वारा क्रमशः थाना प्रभारी, पाटलीपुत्रा, थाना प्रभारी, कृष्णापुरी, थाना प्रभारी, बुद्धा कॉलोनी, एवं थाना प्रभारी, फुलवारीशरीफ, पटना को प्रस्तावित सदस्यों के चरित्र—सत्यापन हेतु पत्र निर्गत किया गया।

इसके अनुपालन में थाना प्रभारी, कृष्णापुरी ने अपने पत्रांक— डी0आर0 3498, दिनांक 06/09/15, थाना प्रभारी, फुलवारीशरीफ, थाना ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 02/12/2015 एवं बुद्धा कॉलोनी ने अपने पत्रांक— डी0आर0 2678/15, दिनांक 07/09/15 द्वारा 7 सदस्यों का चरित्र—सत्यापन प्रेषित किया। स्थानीय जनता द्वारा प्रस्तावित एक सदस्य श्री ललित किशोर, अपर महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय ने अपने व्यक्तिगत कारणों से कार्य करने में अक्षमता प्रकट की।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री हनुमान मंदिर, बोरिंग रोड चौराहा, जिला- पटना” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री हनुमान मंदिर न्यास योजना, बोरिंग रोड चौराहा, जिला- पटना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री हनुमान मंदिर न्यास समिति, बोरिंग रोड चौराहा, जिला- पटना” होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ, राग-भोग परम्परा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकंक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्वद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्वद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्वद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्वद में निहित होगा।

9. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

10. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्वद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | | | |
|-----|---|---|------------|
| (1) | श्री मदन मोहन कुमार सिंह (पी०एच०ई०डी०, अभियन्ता)
153, जय श्री उत्तरी आनन्दपुरी, बोरिंग केनाल रोड, पटना | — | अध्यक्ष |
| (2) | डॉ० राकेश राजहंस
एम 3/38 श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड, पटना | — | सचिव |
| (3) | श्री कौशल कुमार सिंह
पूर्व बैंक प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, बी०/83, बिरला कॉलोनी,
फुलवारीशरीफ, पटना | — | कोषाध्यक्ष |
| (4) | श्री नवल किशोर पाण्डेय
बुद्धा कॉलोनी, मित्र मंडल कॉम्पाउंड, बोरिंग रोड, गोपाल कृष्ण बसेरा, पटना | — | सदस्य |
| (5) | श्री शशांक कुमार झा
बी०/103 बुद्धा कॉलोनी, प्रथमतल, बोरिंग केनाल रोड, पटना | — | सदस्य |
| (6) | श्री प्रेम प्रकाश
सरोजनी हाउस, पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड, पटना | — | सदस्य |
| (7) | डॉ० प्रमोद कुमार
बी/32, श्री राम कुंज, मित्रमंडल कंपाउण्ड, पूर्वी बोरिंग केनाल रोड, पटना | — | सदस्य |

11. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 747-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>